



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2021

16 अग्रहायण, शक सम्वत् 1943

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यालय)

संख्या : 1308/वि०स०/प०का०/76(प)/2005

लखनऊ, दिनांक 07 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि, जनपद-अयोध्या, 276 गोसाईगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खबू तिवारी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे,

और, चूंकि, श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खबू तिवारी, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-276 गोसाईगंज को विशेष आपराधिक वाद संख्या-3012/2018 मु०अ०सं०-24/1992 धारा-420/468/471 भादवि में दिनांक 18-10-2021 को मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०), अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-3, फैजाबाद द्वारा धारा-420 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष के कारावास व 6000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा-468 भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष के कारावास व 8000/- रुपये अर्थदण्ड तथा धारा-471 भादवि के अन्तर्गत 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये से दण्डित किया गया है। अतएव भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-509/Gen/2015/RCC, दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित रिट याचिका संख्या-490 ऑफ 2005 तथा 231 ऑफ 2005 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2013 के अनुसार दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 से निरह माने जायेंगे ;

अतः एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खबू तिवारी का उक्त स्थान दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,  
प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।